



K.M. Sugar Mills Ltd.

Factory & Works : P.O. Motinagar-224201, Dist. Ayodhya (U. P.)
Phone : 7571000692, Email : director@kmsugar.com
CIN No.:L15421UP1971PLC003492 GSTIN No.:09AAACK5545P1ZZ

National Stock Exchange Of India Limited. Exchange Plaza,C-1,Block-G, Bandra Kurla Complex ,Bandra (E), Mumbai-400051 Phone No.022-26598100	Bombay Stock Exchange Limited, 27 th Floor, Phiroze Jeebhoy Tower, Dalal Street ,Fort ,Mumbai-400001 Phone No.022-22728527 Bandra (E),Mumbai-400051
Scrip Code: INE157h01023	Scrip Code:532673

Dear Sir,

Sub: -Announcement under Regulation 30 (LODR)-Newspaper Publication

Pursuant to Regulation 30 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, we are pleased to forward herewith the published advertisement of Notice of 48th Annual General Meeting of the Company before the dispatch of Annual Report for the Financial year 2020-21 in the following newspapers:

1. The Financial Express, New Delhi Edition (English) released on September 02, 2021.
 2. Rashtriya Sahara, Kanpur Edition (Hindi) released on September 02, 2021.
- You are kindly requested to acknowledge the receipt of the same.

For K.M Sugar Mills Limited

Date: 02-09-2021

Place: Lucknow


Pooja Dua
Company Secretary-cum-Compliance Officer

कार्यालय नगरपालिक निगम, कटनी, (म.प्र.)
 क्रमांक/2637/लौ.नि.वि./निर्माण/2021
निविदा आमंत्रण सूचना कटनी, दिनांक :- 27/08/2021

कार्यालय निगम, कटनी द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु ई-टेंडरिंग प्रणाली, के अंतर्गत आमंत्रण निविदाएं https://www.mptenders.gov.in पर Key Date & Time अनुसार म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग, पोखरा में बंदिस्त प्रस्तावों के जहां वकीला निकायों के आमंत्रण को जारी है। निविदाएं नगरपालिका प्रशासन एवं विकास विभाग, पोखरा के वेबसाइट पर एडमिशन ऑफ एन्ट्रेंस, आर. 2012 (संशोधित) के अधीन प्रस्तावित दर का अर्धक प्रदी तार्व (समस्त तार्व) व कार्वाही के अनुसार अधीनस्थ/सहायक के कार्यालय में जिनको भी कार्यालयीय कार्य दिवस में नगरपालिका निगम, कटनी में प्रेषित करना है। प्रस्तावों को नगरपालिका निगम, कटनी को भेजना है। जिनको भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार आवृत्त, नगरपालिका निगम, कटनी को होगा। निविदा लेखक निगम प्रशासनिक कार्यालय।

क्र.	कार्य का विवरण	प्रारम्भिक निविदा (रुपये लाख में)	अंतिम निविदा (रुपये में)	समय आवधि	निविदा प्रत्येक में मूल्य रुपये में	निविदा आमंत्रण का क्रम
1.	नगर सूचना न्याया को चयनित क्रमांक 06 में जी + 2 व्यवसायिक कार्यालय निर्माण एवं अधीनस्थ विकास कार्य	263.08	131540/-	18 माह	15,000/-	प्रथम

नोट :- एकलौकिक कंत्राट का प्रस्तावना जारी रहेगा। शासन द्वारा जारी अदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा, जो अदेशों का एक अंश होना निविदा में परिचय करके संशोधित होना है जो संशोधित या प्रस्तावित किया जायेगा, स्थायी रूप में नहीं। (1) निविदा प्रत्येक कार्य को प्रारंभिक तिथि 31/08/2021 को सार्वकाल 5.30 बजे (2) जी-विड मिटिंग को तिथि 14/09/2021 को सार्वकाल 11.00 बजे को नगर निगम कार्यालय में अधीनस्थ/सहायक के कार्यालयीय कार्य में। (3) निविदा प्रत्येक कार्य प्रस्तुत करने की तिथि 30/09/2021 को सार्वकाल 5.30 बजे तक (4) निविदा लेखकों को तिथि 04/10/2021 को भी, 03.00 बजे तक।

Sd/-
कार्यालय नगरपालिका निगम, कटनी
 बतारु-आयुक्त नगरपालिका निगम, कटनी
 पृ.क्र./2637/लौ.नि.वि./निर्माण/2021

Canara Bank
 सिंडिकेट सिंडिकेट

POSSESSION NOTICE
 (For Immoveable Property)

Where as, the undersigned being the authorised officer of the Canara Bank under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act of 2002) and in exercise of Powers conferred under section 13(2) read with rule 3 of the Security Interest Act (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice on the date mentioned against account (details of which have been mentioned) calling upon the borrower and also owner of the property/surety to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the receipt of the said notice. The respective Borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower and the public in general, that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of power conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 rule. The borrower's attention is invited to provisions of subsection (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured asset. The Borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Canara Bank, Branch for the amount mentioned below plus interest thereon along with other expenses.

Sr. No.	Name of the Borrower/Guarantor	Description of the Immoveable Property/Lies	Possession Date	Date of Demand Notice & Amount as per Notice
1.	Branch: MOHKAMPUR, MEERUT Borrower: Shri Ravinder Kumar S/o Anup Nagar, Fazalpur Rohla Road, Meerut -250002 (UP) and Smt Suman W/o Sh. Ravinder Kumar R/o House No. 142/3 Anup Nagar, Fazalpur Rohla Road, Meerut -250002 (UP)	All that part and parcel of residential House, measuring 179.25 Sq. Yards or 149.87 Sq. Meters Consisting of Mungla Khasra No. 19/27, Situated at Saraswati Vihar, revenue Village Aurangshahpur Galabada Pergana Tehsil and District Meerut. In the name of Sh Ravinder Kumar. The measurement and four boundaries of which are according to sale deed dated 31.10.2008 as Follows: East: 40 feet 9 inch / Plot of Kumkum Gupta West: 37 feet / House of Billa North: 40 feet 6 inch / 15 feet wide Rasta, South: 42 feet 6 inch / Property of Others.	26.08.2021	19.04.2021 Rs. 11,38,725.90 + interest & other expenses
2	Branch: MOHKAMPUR, MEERUT Borrower: M/s Shiv Zippers, Plot No. 18 Khasra No. 363, Village Achroanda Gagol Road, Partapur, Meerut -250002 (UP) and Sh. Adesh Kumar S/o Late Sardar Singh House No. 188, Panchwati Colony, Shatabdi Nagar, Meerut -250002	A factory Land and Building constructed on plot no. 18, measuring 300 Sq yards, pertaining to Khasra Number 363, situated at Village Achroanda Tehsil and District Meerut. Measurements and four boundaries on which are according to sale deed: As per sale deed: East: Plot no. 19, West: Plot No. 18, North : Road 25 feet wide, South : property of Malook Nagar. Measurement As: East : 79*6" North : 34*8", West: 76*5", South: 34*8"	26.08.2021	19.04.2021 Rs. 9,85,304.16 + interest & other expenses
3	Branch: MOHKAMPUR, MEERUT Borrower: Smt. Sakima W/o Sh. Sajid Ali, Plot No. 31, Vikaswani Scheme No. 5, Hapur Road, Meerut and Sh. Sajid Ali S/o Hazi Rashid, Plot No. 31, Vikaswani Scheme No. 5, Hapur Road, Meerut.	A House measuring 103.00 Sq. yards or 86.12 Sq. Meters consisting of part of plot no. 31, Vikas Pur, Scheme No. 5, Meerut City whose boundaries are as follows: Under East: - 41 Feet 6 inch / Rasta 12 Feet wide West: 41 Feet 6 inch / House of Atul Ali, North : 22 feet 4 inch / House of Shakeel, South : 22 feet 4 inch / Rasta 30 Feet wide.	26.08.2021	19.04.2021 Rs. 9,85,304.16 + interest & other expenses

Date: 01.09.2021 Place: Meerut Authorized Officer

punjab national bank ...the name you can BANK upon!
 SASTRA Centre, Circle Office Bareilly, Pilibhit Bypass Road, Bareilly, Ph.:0581-2520440

NOTICE U/S 13 (2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002

It is hereby informed that due to non-payment of installment/interest/principal debt, the below mentioned accounts have been classified as Non - Performing Asset as per Reserve Bank of India guidelines. We had demanded the entire outstanding together with interest and other charges due under the below mentioned facilities under Section 13 (2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 through registered post on their last available addresses but the notices were either returned undelivered or their acknowledgments were not received and as such they are hereby informed about the same by way of public notice. We hereby call upon the following Borrowers/Guarantors/Mortgagors to pay the amount as mentioned below with further interest at the contracted rate until payment in full, within 60 days (Sixty days) from the date of this publication. In default, besides exercising other rights of the bank as available under Law, the bank is intending to exercise any or all of the powers as provided under section 13 (4) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002. The details of the secured assets/s intended to be enforced by the bank, in the event of non-payment of secured debt is also mentioned below.

Name of Branch, Borrower, Guarantor & Address of the Account	Outstanding Amount	Details of property mortgaged with the bank and Owner's of the property
Branch : Springdale College, Bareilly M/s Al Raza Zari House (Prop. Vasis Raza Khan S/o Nasir Raza Khan) R/o-Near Azad Market, Shalini Road, Shyamganj, Bareilly Guarantor :- 1. Nayab Begum W/o Sh. Nasir Raza Khan, 2. Nasir Raza Khan S/o Ahmad Raza	Notice Dated : 18-8-2021 of Rs. 5,61,969.75 and int and other charges from w.e.f.01.04.2020	EM of Residential House in the Name of Nasir Raza S/o Ahmad Raza & Smt. Nayab Begum W/o Nasir Raza Measuring area 61.04 Sqmts. Situated at Moh. Katra Chand Khan, Old City, Bareilly vide sale deed Registered with sub registrar Bareilly. Book No. 01, Zild No.5324, Pages No. 311-334 against Serial No. 12842 On Dated 17/11/2012. Bounded as : East- H/o Ishiyaq Hussain, West-Rasta Gali 8 Ft. Wide There after Birender Maheshwari, North-H/o Umar, South-H/o Mohan Lal Arora & Access Road Gali 8 ft. wide.
Branch : Pilibhit Bypass Road, Bareilly Sh. Shashi Kant Sharma S/o Sh. Shihiti Kanth Sharma Add. H.No. 60, Cantt. Bareilly Guarantor :- Smt. Sonia Sharma W/o Sh. Shashi Kant Sharma	Notice Dated : 18-8-2021 of Rs. 9,53,162.78 and int and other charges from w.e.f.01.04.2021	EM of Residential House in the Name of Smt Sonia Sharma W/o Shashi Kanth Sharma situated at part of Khasra No 72 to 76, House No. 49 Measuring area 300.16 Sq.mts. situated at Mohalla Nawada Jogiyvan, Ashish Royal Park Road, Bareilly vide sale deed Registered with sub registrar Bareilly. Book No. 01, Zild No 3462, on Pages No. 395-430 against Serial No. 4406- On Dated 12-05-2010. Bounded as : East: Sarkari Road, West: Plot No-50, North: Plot No-51, South: Plot No-47.

Date: 02.09.2021 Place : Bareilly Authorized Officer

HIGH STREET FILATEX LTD
 REGD OFFICE: B-17, IIND FLOOR, 22 GODAM INDUSTRIAL AREA, JAIPUR-302006, INDIA
 Tel No: 0141-2214074, 4025431
 Web Site: www.higheststreetfilatex.in | E-mail: higheststreet.filatex@gmail.com
 CIN: L18101RJ1994PLC008386

NOTICE OF 27TH ANNUAL GENERAL MEETING OF HIGH STREET FILATEX LIMITED TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFENCING ("VC") OR OTHER AUDIO VISUAL MEANS ("OAVM") AND REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 27th Annual General Meeting ("AGM") of High Street Filatex Limited will be held on **Monday, September 27, 2021 at 02:00 P.M.** through video conferencing ("VC") or other audio visual means ("OAVM") in accordance with the Circular no. 14/2020 dated April 8, 2020 read with Circular no. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular no. 20/2020 dated May 5, 2020 and Circular no. 02/2021 dated January 13, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and circular no. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 issued by the Securities Exchange Board of India ("SEBI Circulars") without the physical presence of the members at a common venue. Members participating through VCI/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under section 103 of the Companies Act, 2013 ("the Act").

Electronic copies of the Notice of the 27th AGM and the Annual Report for the financial year 2020-21 have been sent to all the members on Tuesday, August 31, 2021 whose e-mail IDs are registered with the Company/Depository Participant(s)/RTA. The requirements of sending physical copy of notice of AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circulars and SEBI Circulars as mentioned above.

In compliance with provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Company is pleased to offer remote e-voting facility to the members to enable them to cast their votes electronically from a place other than the venue of the AGM ("Remote e-voting") on all resolutions set forth in the Notice of 27th AGM, as well as e-voting on the date of the AGM. For this purpose, the Company has signed an agreement with the Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") for facilitating e-voting facility.

In this regard, the Members are hereby further informed that:

- The remote e-voting period shall start at 10:00 A.M. on Thursday, September 23, 2021 and end at 05:00 P.M. on Sunday, September 26, 2021. The remote e-voting shall not be allowed after 05:00 P.M. on Sunday, September 26, 2021 and the same will be disabled by CDSL thereafter.
- A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. Monday, September 20, 2021, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting and e-voting at the AGM. The detailed procedure/ instructions for remote e-voting and e-voting are contained in the Notice of the AGM.
- Any person who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. Monday, September 20, 2021 may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdsindia.com. However, if a person is already registered with CDSL for remote e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote.
- Members who have not cast their vote by remote e-voting and are present in the AGM through VCI/OAVM, shall be eligible to vote through e-voting at the AGM.
- Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM through VCI/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.
- The notice of the AGM and annual report are available on the website of the Company i.e. www.higheststreetfilatex.in and website of BSE Limited i.e. www.bseindia.com. The notice of the AGM is also available on the website of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") i.e. www.evotingindia.com.
- For the purpose of 27th AGM the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from September 21, 2021 to September 27, 2021 (both days inclusive).
- Any query/grievances pertaining to voting by electronic means, the members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and remote e-voting user manual for members available at www.evotingindia.com under help section or contact Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL), Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futrex, Mafatali Mil Compounds, N.M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013, email: helpdesk.evoting@cdsindia.com; Phone: 18002005533. Members may also write to company secretary at the company email address i.e. higheststreet.filatex@gmail.com.

By the order of the Board For High Street Filatex Limited
 Sd/-
Vibhor Kumawat
 Company Secretary and Compliance officer
 M. No.: ACS-55710
 Date: August 31, 2021 Place: Jaipur

"FORM NO. INC-26"
 (Pursuant to Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014)
 Advertisement to be published in the newspaper for change of Registered Office of the Company from one State to another
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION, NEW DELHI
 In the matter of Sub-Section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
AND
SILVER TOWERS PRIVATE LIMITED
 CIN : U70190DL1992PTC0282907
 HAVING ITS REGISTERED OFFICE AT 721, AKSHARDHAM APARTMENT, 1st FLOOR, SECTOR-19 DWARKA, DELHI 110 075.
 PETITIONER
 Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under Section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the Special Resolution passed at the Extraordinary General Meeting held on 28th day of August, 2021 to enable the Company to change its Registered Office from "National Capital Territory (NCT) of Delhi" to "State of Haryana".
 Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the Registered Office of the Company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region at the address B-2 Wing, 2nd Floor, Parvayaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003 within fourteen days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below:
 721, AKSHARDHAM APARTMENT, 1st FLOOR, SECTOR -19 DWARKA, DELHI 110 075
 For & on behalf of Applicant
 Silver Towers Private Limited
 Sd/-
 (Rajeev Dhawan)
 Director
 Date : 30.08.2021 Place : New Delhi DIN : 00899432

"Form No. INC-26"
 (Pursuant to Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014)
 Before the Central Government, Regional Director, Northern Region, New Delhi
 In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
AND
 In the matter of GLOBAL TENDERS SERVICES PRIVATE LIMITED
 (CIN: U71400DL2013PTC255703) having its Registered Office at 25-D, CGHS, Ujjawal Apartment, Bijli Vikash Puri Delhi - 110059
 NOTICE is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under Section 13(4) of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on Monday, 02nd August, 2021 to enable the company to change its Registered Office from "National Capital Territory of Delhi" to the "State of Maharashtra".
 Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, Ministry of Corporate Affairs, B-2 Wing, 2nd Floor, Parvayaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003 within fourteen days (14) from the date of publication of this notice with a copy to the applicant Company at its registered office at the address mentioned below:-
 25-D, CGHS, Ujjawal Apartment, Bijli Vikash Puri Delhi - 110059
 For & on behalf of Applicant GLOBAL TENDERS SERVICES PRIVATE LIMITED
 Sd/-
RAKESH VERMA
 (DIRECTOR)
 DIN : 06612000
 Date : 01.09.2021 : Place : Delhi

"Form No. INC-26"
 (Pursuant to rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014)
 Advertisement to be published in the newspaper for shifting of Registered office of the company from one state to another
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT (REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION, NEW DELHI)
 In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
AND
 In the matter of SURYA TRAINING INSTITUTE PRIVATE LIMITED having its registered office at 102, Shama Complex, A-2, Guru Nanak Pura, Laxmi Nagar New Delhi-110092.
 Applicant company
 Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government power delegated to the Regional Director under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of Alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 28.08.2021 to enable the company to change its Registered Office from the "State of Delhi" to "State of Uttar Pradesh".
 Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region at the address B-2 Wing, 2nd Floor, Parvayaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003 within fourteen days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below:
 102, Shama Complex, A-2, Guru Nanak Pura, Laxmi Nagar New Delhi-110092.
 For and on behalf of the Applicant
 Sd/-
Anil Singh Gautam
 Director
 Date: 31.08.2021 Place: New Delhi DIN -01032103

"Form No. INC-26"
 (Pursuant to rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014)
 Advertisement to be published in the newspaper for shifting of Registered office of the company from one state to another
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT (REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION, NEW DELHI)
 In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
AND
 In the matter of SURYA TRAINING AND STUDY INSTITUTE PRIVATE LIMITED having its registered office at 102, Shama Complex, A-2, Guru Nanak Pura, Laxmi Nagar New Delhi-110092.
 Applicant company
 Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government power delegated to the Regional Director under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of Alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 27.08.2021 to enable the company to change its Registered Office from the "State of Delhi" to "State of Uttar Pradesh".
 Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region at the address B-2 Wing, 2nd Floor, Parvayaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003 within fourteen days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below:
 102, Shama Complex, A-2, Guru Nanak Pura, Laxmi Nagar New Delhi-110092.
 For and on behalf of the Applicant
 Sd/-
Anil Singh Gautam
 Director
 Date: 31.08.2021 Place: New Delhi DIN -01032103

RAKESH VERMA
 (DIRECTOR)
 DIN : 06612000
 Date : 01.09.2021 : Place : Delhi

Form No. INC-26
 (Pursuant to rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014)
 Advertisement to be published in the newspaper for shifting of Registered office of the company from one state to another
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT (REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION, NEW DELHI)
 In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
AND
 In the matter of SURYA TRAINING AND STUDY INSTITUTE PRIVATE LIMITED having its registered office at 102, Shama Complex, A-2, Guru Nanak Pura, Laxmi Nagar New Delhi-110092.
 Applicant company
 Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government power delegated to the Regional Director under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of Alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 27.08.2021 to enable the company to change its Registered Office from the "State of Delhi" to "State of Uttar Pradesh".
 Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region at the address B-2 Wing, 2nd Floor, Parvayaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003 within fourteen days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below:
 102, Shama Complex, A-2, Guru Nanak Pura, Laxmi Nagar New Delhi-110092.
 For and on behalf of the Applicant
 Sd/-
Anil Singh Gautam
 Director
 Date: 31.08.2021 Place: New Delhi DIN -01032103

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL-III, CHANDIGARH
 SCO No. 33-34-35, Sector-17A, Chandigarh

RG. No. 1070/2019
Punjab National Bank (e-Oriental Bank of Commerce) vs
M/s Surya Rice Mills
 Certificate Holder
 Versus
 Certificate Debtor

PUBLICATION NOTICE
 (Notice under Rule 2 of the Second Schedule of Income Tax Act, 1961 read with Section 25 to 28 of the RDBB & FI Act, 1993.)

To
 1. M/s Surya Rice Mills, Dhani Partap Singh Road, Malout, District Muktsar Sahib (Punjab) through its Proprietor Sh. Ashish Kathuria.
 2. Sh. Ashish Kathuria S/o Sh. Satinder Kumar Kathuria, House No. 462, Main Bazar, College Road, Street No. 8, Malout, District Muktsar Sahib (Punjab)-152107Principal Borrowers/Guarantors.
 3. Sh. Satinder Kathuria S/o Sh. Kesar Chand, House No. 462, Main Bazar, College Road, Street No. 8, Malout, District Muktsar Sahib (Punjab)-152107 Guarantors.
 4. Sh. Bishamber Dass Muradia S/o Sh. Gobind Lal R/o House No. 54, Vikas Public School, Malout, Tehsil Malout, District Muktsar Sahib (Punjab) Guarantors.

In terms of the Recovery Certificate in O.A. No. 2155 of 2018 issued by the Hon'ble Presiding Officer, a sum of Rs. 1,32,90,536.82p has become due from you.

Whereas it has been shown to the satisfaction of Tribunal that it is not possible to serve you in the ordinary way, therefore this notice is given by this publication directing you to put in appearance before this Tribunal on 13.09.2021 at 11:00 A.M.

Take notice that in case of default of your appearance on the specified day and time the case shall be heard and decided in your absence. Given under my hand and seal of this Tribunal Recovery Officer-II on 13th Day of July, 2021 at Chandigarh.

STEEL STRIPS INFRASTRUCTURES LIMITED
 CIN: L27109PB1973PLC003232
 Regd. Off: Village Somalheri/Lehli, P.O. Dappar, Tehsil Dera Bassi, Distt. Mohali (Pb.)-140506. Tel : +91-172-2793111. Fax : +91-172-2794834
 Email: ssl_ssp@glide.net.in. Website: www.ssliindia.com
NOTICE OF 48TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE.

Notice is hereby given that:

- The 48th Annual General Meeting (48th AGM) of the Company is scheduled to be held on Thursday, September 30, 2021 at the Registered Office of the Company at 12:00 p.m. at Regd. Off: Village Somalheri/Lehli, P.O. Dappar, Tehsil Dera Bassi, Distt. Mohali (Pb.) to transact the business as set out in the notice dated 13.08.2021.
- Copies of the Notice of the 48th AGM (Notice) and Annual Report of the Company for the financial year 2020-21 were sent to all the members at their registered address in physical mode and in electronic mode to those members whose e-mail id registered with the Company/Depository Participant(s). The dispatch has been completed on August 30, 2021 and the same is also available on the Company's website www.ssliindia.com
- Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on cut-off date of September 23, 2021, may cast their vote electronically on Ordinary and Special Business(es) as set out in Notice through electronic voting system of Central Depository Services (India) Limited (CDSL).
- Any person who becomes member of the Company after dispatch of Notice of the meeting and holding shares as on the cut-off date i.e. September 23, 2021 may follow the same instructions as mentioned in the notice of AGM for remote e-voting. If the member is already registered with CDSL for remote e-voting, he can use his existing User Id and password for casting vote through remote e-voting.
- A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at AGM. In case of voting by both the modes, vote casted through remote e-voting will be considered final.
- The members are informed that (a) The remote e-voting shall commence on September 27, 2021 at 9:00 a.m. and end on September 29, 2021 at 5:00 p.m. (b) Voting through electronic means shall not be allowed beyond 5:00 pm on September 29, 2021. (c) In case of any queries relating to voting by electronic means, members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQ") and e-voting manual available at download section of www.evotingindia.com or contact at toll free No. 1800225533, or contact Mr. Mehboob Lakhani, CDS at Email: mehboob@cdsindia.com. Tel: 022-23058543/615. 7. Pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 and the applicable rules thereunder, the Register of Members and Share Transfer Books for of the Company will remain closed from September 24, 2021 to September 30, 2021 (Both days inclusive), for the purpose of Annual General Meeting (AGM).

Date : 01.09.2021 For Steel Strips Infrastructures Limited
 Place : Chandigarh Sanjay Garg, Executive Director
 DIN:00030956

K M SUGAR MILLS LIMITED
 Regd. Office: 11-Moti Bhawan, Collector Ganj, Kanpur-208001(U.P.)
 Corp. Office: 76-Eldeco Green, Gombi Nagar, Lucknow-226011(U.P.)
 CIN No. : L15421UP1971PLC003492.
 E-mail:- cs@kmsugar.in Phone : 0512-2310762, 0522-4079561

NOTICE OF 48th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING FOR INFORMATION TO MEMBERS

- The 48th Annual General Meeting ("AGM") of the K M Sugar Mills Limited will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") on Wednesday 29th September, 2021 at 11:00 (AM), in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India 2019 India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 read with General Circular No. 14/2020 and 17/2020 dated April 8, 2020 and April 13, 2020 respectively and General Circular No. 39/2020 dated 31st December 2020 issued by the MCA and also SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January 2021 issued by SEBI (collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the business set out in the Notice calling the AGM. Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM or view the live webcast at https://instameet.linkintime.co.in. Members participating through the VC / OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.
- In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM along with the stand-alone and consolidated financial statements for the financial year 2020-21, along with Board's Report, Auditors' Report and other documents required to be attached thereto, will be sent to all the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s). The aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.kmsugar.com and on the website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and on the website of Company's Registrar and Transfer Agent, Link in Time India Private Limited ("LITILP"), at https://instavote.linkintime.co.in.
- The manner of registering / updating email addresses: (a) In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to swapan@linkintime.co.in (b) Members holding shares in dematerialised mode, who have not registered / updated their email addresses with their Depository Participants, are requested to register / update their email addresses with the Depository Participants with whom they maintain their demat accounts.
- The Manner of casting vote(s) through e-voting: (a) Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system ("e-voting"). (b) The manner of voting remotely ("remote e-voting") by members holding shares in dematerialised mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses has been provided in the Notice of the AGM. The details will also be available on the website of the Company at www.kmsugar.com. (c) That the facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM and Members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM. (d) That the login credentials for casting votes through e-voting shall be made available to the members through email. Members who do not receive email or whose email addresses are not registered with the Company/Depository Participant(s), may generate login credentials by following instructions given in the Notes to Notice of AGM. (e) That the same login credentials may also be used for attending the AGM through VC/OAVM.
- That the members were requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for Joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or voting through the AGM.
- That the Member were further informed that the remote e-voting period shall start from 09.00 A.M on Thursday, September 26, 2021 to 5.00 PM, (IST) on Tuesday, September 28, 2021 (both days Inclusive).
- That a person, whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners (in case of electronic shareholding) maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e., Wednesday, September 22, 2021, only shall be entitled to vote.
- That the register of member and share transfer books of the company will remain closed from Thursday, 23rd September, 2021 to Wednesday, 29th September, 2021 (both days Inclusive).

By order of the Board For K M Sugar Mills Ltd.
 Sd/-
 Pooja Dua
 Company Secretary
 Place: Lucknow
 Dated: 01 September 2021

INDO GULF INDUSTRIES LIMITED
 Registered Office: 4237/11, IInd Floor, Narendara Bhawan 1, Ansari Road, Daryaganj, New Delhi - 110001, India
NOTICE OF 38th ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE DATE

Notice is hereby given that the 38th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Wednesday, the 29th Day of September, 2021 at 4:00 PM through Video Conferencing/Other Audio Visual means in compliance with general circular no 20/2020, 14/2020, 17/2020 issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and circular no SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (hereinafter collectively referred to as circulars) Companies are allowed to hold AGM's through VC, without the physical presence of members at a common venue. Hence the AGM of the Company is being held through VC to transact the business as set out in the AGM Notice.

In compliance with the circulars, electronic copies of the notice of the AGM and Annual Report 2020-21 have been sent to all the members whose

